

SHRI B. C. GHOSH: Have Government any proposal under consideration for taking over absolute control of investments of Insurance Companies?

SHRI A. C. GUHA: Nothing at present.

SHRI H. P. SAKSENA: Do Government propose to appoint another Committee to go into the recommendations of the last Committee?

(No reply.)

RAILWAY AND BUS CONCESSIONS TO UNIVERSITY STUDENTS

*328. SHRI D. NARAYAN: Will the Minister for EDUCATION be pleased to state the number of university students who availed of the 75 per cent, concession in fares for railway and bus travel offered by Government to encourage them to tour during their last summer vacation?

THE DEPUTY MINISTER FOR EDUCATION (DR. K. L. SHRIMALI) : 771 in 16 different batches.

SHRI D. NARAYAN: May I know the number Statewise?

DR. K. L. SHRIMALI:

Bombay University	.156
Calcutta University	67
Delhi University	22
Nagj-ur University	195
Punjab University	184
Rajputana University	35
U. P. Government	112
TOTAL	771

SHRI D. NARAYAN: May I know the expenditure incurred by the Government on this scheme?

DR. K. L. SHRIMALI: Government give concessions to the students. Any grant is up to 75 per cent, of the third class railway fare.

SHRI D. NARAYAN: I want the expenditure that has been incurred on this by the Government.

DR. K. L. SHRIMALI: The total expenditure till June 1955 was Rs. 18,300.

SHRI D. NARAYAN: May I know, Sir, if the scheme will be extended to the students appearing for the matriculation examination; because, after their examination, they have to enter these universities?

DR. K. L. SHRIMALI: This is primarily for the students of the universities. But we shall consider whether it can be extended for the pre-matriculates also.

SHRI D. D. ITALIA: May I know if any concession will also be granted in the case of students travelling by air?

DR. K. L. SHRIMALI: This is only for students travelling by rail.

DR. W. S. BARLINGAY: What kind of concession is given with regard to bus travel?

DR. K. L. SHRIMALI: The same 75 per cent, of the fare.

विभिन्न आदिम जातियों पर मानव विज्ञान विभाग की रिपोर्ट

*३२९. श्री नवाब सिंह चौहान : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मानव विज्ञान विभाग ने आसाम, उत्तर-पूर्वी सीमा एजेंसी तथा अंडमान और निकोबार आदि स्थानों की आदिम जातियों के सम्बन्ध में जो अनुसंधान किए हैं, क्या उनकी कोई रिपोर्ट प्रकाशित हो चुकी है; और

(ख) इन अनुसंधानों के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं ?

t [ANTHROPOLOGICAL REPORTS ON VARIOUS TRIBES

*329. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN: Will the Minister for EDUCATION be pleased to state:

fEnglish translation.

(a) whether any report of the investigations conducted by the Department of Anthropology about the tribal peoples of Assam, North East Frontier Agency, and Andaman and Nicobar Islands has been published; and

(b) what are the main findings that have emerged from these investigations?]

शिक्षा उपमंत्री (डा० के० एल० श्रीमाली):

(क) और (ख). इस का विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) मानव विज्ञान विभाग का आसाम, उत्तर-पूर्वी सीमा एजेन्सी तथा अंडमान और निकोबार द्वीपों की आदिम जातियों के सम्बन्ध में अनुसन्धान कार्य अभी चल रहा है। कार्य समाप्त होने पर सम्बन्धित आदिम जातियों पर लेख प्रकाशित किये जायेंगे। इस बीच में विशेष विषयों से सम्बन्धित बहुत से पत्र प्रकाशित किये जा चुके हैं, अथवा प्रेस में हैं। उत्तर-पूर्वी सीमा एजेन्सी की आदिम जातियों पर छः पत्र और अंडमान और निकोबार की आदिम जातियों पर तीन पत्र विभागीय बुलेटिन और अन्य पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। उपरोक्त आदिम जातियों पर बारह पत्र प्रेस में हैं।

(ख) मुख्य निष्कर्षों के लिये माननीय सदस्य उन पत्रों को देखें जो विभागीय बुलेटिन और अन्य पत्रिकाओं में छप चुके हैं।

(THE DEPUTY MINISTER FOR EDUCATION (DR. K. L. SHRIMALI): (a) and (b). A statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT

(a) The investigations by the Department of Anthropology among the tribal peoples of Assam, North East Frontier Agency and Andaman and Nicobar Islands are still in progress.

(English translation.

Monographs on the tribes concerned will be published after completion of the work. In the meantime, quite a number of papers dealing with special aspects have already been published or are in the press. Six papers on North East Frontier Agency tribes and three on the Andaman and Nicobar tribes have been published in Departmental Bulletin and other journals. Twelve papers on the aforementioned tribes are in the press.

(b) For the main findings, the hon Member may please refer to the papers already published in the Departmental Bulletin and other jour, nals.l

श्री नवाब सिंह चौहान : यह विवरण जो सभा पटल पर रखा गया है उसमें लिखा है कि "इस बीच में विशेष विषयों से सम्बन्धित बहुत से पत्र प्रकाशित किये जा चुके हैं अथवा प्रेस में हैं। उत्तर-पूर्वी सीमा एजेन्सी की आदिम जातियों पर छः पत्र और अंडमान और निकोबार की आदिम जातियों पर तीन पत्र विभागीय बुलेटिन और अन्य पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं।" ता सरकार ने क्या प्रयत्न किया है कि ये पत्र पार्लियामेंट के मंत्रियों को मिल जायें। यदि कोई प्रयत्न नहीं किया गया है, तो जो १२ पत्र प्रेस में हैं, क्या उनके लिये भी आशा की जा सकती है कि वे मंत्रियों को मिल जायें ?

डा० के० एल० श्रीमाली : मैं पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में इन सब पत्रों को, जितने भी मिल सकते हैं, रखवाने की कोशिश करूंगा।

श्री नवाब सिंह चौहान : क्या मंत्री जी को मालूम है कि तमाम बुलेटिन और ये पत्र मंत्रियों के पास नहीं जाते हैं। फिर क्या इन्हें कि ये पत्र इस समय नहीं दिये गये, और इनको बुलेटिन में देख लेने के लिये आदेश दिया गया है ?

डा० के० एल० श्रीमाली : सब जितने सरकार के प्रकाशन हैं, सभी ता मंत्रियों के पास नहीं भेजे जाते। यदि सदस्य महोदय को

विशेष रुचि हैं तो मैं उन्हें उनके लिये प्राप्त करने की कोशिश करूंगा।

SHRIMATI VIOLET ALVA: May I know the number and the name; of the investigators, a.; well as the total time taken for the purpose of investigations?

DR. K. L. SHRIMALI: Well, Sir, it is a long list, and there are various kinds of investigations made. Investigations into the dietetic habits of the tribes were made by Dr. P. N. Sen Gupta. There are so many things here. Does the hon. Member want me to read the whole list?

MR. CHAIRMAN: No, no.

SHRI GOPIKRISHNA VIJAVARGIYA: Are the investigations recently made, or are they being conducted for a very long time?

DR. K. L. SHRIMALI: They are being conducted at present. This work has been taken up very recently.

SHRIMATI VIOLET ALVA: May I know the total time taken for this purpose?

DR. K. L. SHRIMALI: I am afraid, I cannot give that information just now.

DR. RAGHUBIR SINH: May I know, Sir, whether all these publications are supplied to the Parliament Library here?

DR. K. L. SHRIMALI: I have already informed the House that I will try to secure all the publications for the Parliament Library.

ट्रांसफ्यूजन जिलोटीन का मनुष्यों पर परीक्षण-
त्मक प्रयोग

*२२०. श्री नवाब सिंह चौहान: क्या प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'ब्लड प्लाज्मा' का स्थानापन्न जो ट्रांसफ्यूजन जिलोटीन आविष्कृत हुआ है उसका परीक्षण-त्मक प्रयोग क्या मनुष्यों पर भी किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं और यह पदार्थ 'ब्लड प्लाज्मा' के मुकाबिले में किस स्तर का सिद्ध हुआ है ?

f [HUMAN TRIAL ON TRANSFUSION GELATINE

*330. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN: Will the Minister for NATURAL RESOURCES AND SCIENTIFIC RESEARCH be pleased to state:

(a) whether any human trial on transfusion gelatine, invented to replace the 'blood plasma', has been carried out; and

(b) if so, what have been the results thereof and of what standard this substance has proved to be as compared to 'blood plasma'?

शिक्षा उपमंत्री (डा० क० एल० श्रीमाली):
(क) अभी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

*-[THE DEPUTY MINISTER FOR
EDUCATION (DR. *ti.* L. IUHRLAIALI) : (a)
Not yet.

(b) Does not arise.]

श्री नवाब सिंह चौहान : क्या इस पर कोई
कोशिशें जारी हैं ?

डा० क० एल० श्रीमाली : जी हां।

श्री नवाब सिंह चौहान : अब तक उसमें
क्या काम हो चुका है ?

डा० क० एल० श्रीमाली : लैबोरेटरी में एक
पदार्थ तैयार किया गया है और उसका जानवरों
पर प्रयोग किया गया है। अब यह प्रयोग